



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 374] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 1976/कार्तिक 27, 1898

No. 374] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 1976/KARTIKA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November 1976

**G.S.R. 883(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government after consultation with the State Government of Tamil Nadu and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Third Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, for the entries relating to the State of Tamil Nadu, the following entries shall be substituted, namely:—

"Tamil Nadu: (1) Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu.

(2) Secretary in the Government of Tamil Nadu in the Home Department.

(3) Inspector General of Police.

(4) Additional Inspector General of Police.

(5) A nominee of the Government of India not below the rank of Joint Secretary."

[No. 11039/19/76-AIS(I)]

S. V. S. JUNEJA, Jt. Secy.

## संश्लेषण सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1976

सं० का० नि० 883 (अ).—भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद भारतीय पुलिस सेवा पदोन्नति द्वारा (नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम 1976 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में, तमिलनाडु राज्य से सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- “तमिलनाडु : (1) तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव  
(2) तमिलनाडु सरकार के गृह विभाग में सचिव  
(3) पुलिस महानिरीक्षक  
(4) अपर पुलिस महानिरीक्षक  
(5) भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का न हो।”

[संख्या 11039/19/76-अ० भा० से० (1)]

एस० बी० एस० जुनेजा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
मिर्चबक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976